

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 65]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 जनवरी 2010—पौष 21, शक 1931

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, (मध्यप्रदेश) 462 011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र. एफ. 65-08-09-तीन-301.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, मुरैना, जिला-मुरैना.	अध्यक्ष पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद	- 1 2 3 4 5 6 7 8 9	- एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ	राजेश कथूरिया (खटीक) श्रीमती गिरिजा अमर सिंह मोर्य विजय कुमार सोलंकी श्री गिरजेश राधारमण डंडौतिया अनीता नरेश यादव नरेश कुमार कारखुर महादेवी बैजनाथ इन्दौलिया श्री इकबाल कुरैशी रामवती कैलाश जाटव इन्द्रा देवी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	पार्षद	10	दस	श्री गजेन्द्र पिरोजी (गौरी)	
	पार्षद	11	ग्यारह	डॉ. रामओतार सिंह नैगी	
	पार्षद	12	बारह	दिलीप सिंह राठौर	
	पार्षद	13	तेरह	लोकेन्द्र सिंह डण्डौतिया	
	पार्षद	14	चौदह	श्री अनूप डण्डौतिया	
	पार्षद	15	पन्द्रह	रामबेटी हर्षाना	
	पार्षद	16	सोलह	मधु भदौरिया (श्रीराम)	
	पार्षद	17	सत्रह	केशवदास शर्मा	
	पार्षद	18	अठारह	रामकुमार सिंह बैसला	
	पार्षद	19	उन्नीस	बबीता श्रीगोपाल गुप्ता	
	पार्षद	20	बीस	हितकिशोर गुप्ता	
	पार्षद	21	इक्कीस	प्रबलप्रताप सिंह मावई	
	पार्षद	22	बाईस	मुन्नी रनजीत सिकरवार	
	पार्षद	23	तेईस	गोविन्द गोले	
	पार्षद	24	चौबीस	मण्डलेश्वर सिंह हर्षाना	
	पार्षद	25	पच्चीस	मीनासिंह गरसिंह सिकरवार	
	पार्षद	26	छब्बीस	गुड़िया गुर्जर	
	पार्षद	27	सत्ताईस	श्री रामस्वरूप सिकरवार (नेताजी)	
	पार्षद	28	अट्ठाईस	श्रीमती कमलेश दिलीप यादव	
	पार्षद	29	उन्तीस	श्रीमती निराला भारत यादव	
	पार्षद	30	तीस	श्रीमती प्रिया भूपेन्द्र	
	पार्षद	31	इकतीस	डॉ. राजकुमार टैगोर	
	पार्षद	32	बत्तीस	मुन्नीदेवी सुरेश सिंह	
	पार्षद	33	तैंतीस	श्री सोनेराम प्रजापति	
	पार्षद	34	चौंतीस	श्रीमती शान्ती देवी सिकरवार	
	पार्षद	35	पैंतीस	श्री संजय शर्मा	
	पार्षद	36	छत्तीस	श्रीमती मुन्नीदेवी अमृतलाल यादव	
	पार्षद	37	सैंतीस	श्रीमती सावित्री	
	पार्षद	38	अड़तीस	श्री अजीत सिंह	
	पार्षद	39	उन्चालीस	श्री राजू सिंह विष्णु सिकरवार	

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-302.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल अंकों में	पार्षद शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद् सबलगढ़, जिला-मुरैना.	अध्यक्ष	-	-	दीपक सुरेश चौधरी
		पार्षद	1	एक	श्रीमती नीलम जादौन
		पार्षद	2	दो	श्रीमती नर्वदा रामसिंह कुशवाह
		पार्षद	3	तीन	हरीचरण (हरीओम गुप्ता)
		पार्षद	4	चार	राजकुमार अग्रवाल (राजू)
		पार्षद	5	पांच	रीना अमर शर्मा
		पार्षद	6	छः	रूबी जुगल किशोर धानुक
		पार्षद	7	सात	रवी कुमार श्रीवास
		पार्षद	8	आठ	कल्लो वानो पीरू खाँ
		पार्षद	9	नौ	रमेश चंद सोनी
		पार्षद	10	दस	ललिता मनोज प्रताप
		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती प्रेमबाई पत्नी जगदीश प्रसाद त्यागी
		पार्षद	12	बारह	पन्ना लाल माहौर (कोरी)
		पार्षद	13	तेरह	बाबूलाल बौद्ध
		पार्षद	14	चौदह	सुनील सिंह जादौन उर्फ लाला
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमती मंजू मनोज इलाइची
		पार्षद	16	सोलह	रामविलास नाई
		पार्षद	17	सत्रह	रंजीत सिंह धाकड़
		पार्षद	18	अठारह	श्रीमती पुष्पा देवी शिवहरे

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-303.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र. (1)	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)
			अंकों में (4)	शब्दों में (5)	
1	नगर पंचायत, झुण्डपुरा, जिला-मुरैना.	अध्यक्ष	-	-	सुनीता रामकुमार रावत
		पार्षद	1	एक	कामेली रामविलास रावत
		पार्षद	2	दो	शकुन्तला
		पार्षद	3	तीन	मुन्नालाल केवट
		पार्षद	4	चार	विजय सिंह गुर्जर
		पार्षद	5	पांच	अंगूरी बाई गुर्जर
		पार्षद	6	छः	प्रकाश जाटव
		पार्षद	7	सात	रूमाली रघुनाथ जाटव
		पार्षद	8	आठ	बसीरन अलीसेन खॉ
		पार्षद	9	नौ	शिवलता हरिओम
		पार्षद	10	दस	बृजेश शर्मा
		पार्षद	11	ग्यारह	गजाधर कुशवाह
		पार्षद	12	बारह	जगदीश प्रसाद गुप्ता उर्फ बया
		पार्षद	13	तेरह	गीता बाई सिद्धनाथ शर्मा
		पार्षद	14	चौदह	रामसिंह रावत
		पार्षद	15	पन्द्रह	आदिराम आर्य

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-304.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र. (1)	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)
			अंकों में (4)	शब्दों में (5)	
1	नगर पंचायत, कैलारस, जिला-मुरैना.	अध्यक्ष	-	-	श्री रमेश कुशवाह आडतिया
		पार्षद	1	एक	इब्राहिम शाह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	2	दो	शान्ती बनवारी
		पार्षद	3	तीन	महेश माहौरिया
		पार्षद	4	चार	अनिल गोयनर
		पार्षद	5	पांच	अनीता राजू गुप्ता
		पार्षद	6	छः	राजू प्रजापति
		पार्षद	7	सात	ऊषा राजेन्द्र कैलाशी
		पार्षद	8	आठ	मुन्नी तुस्सी गौड़
		पार्षद	9	नौ	वीरेन्द्र बसेडिया
		पार्षद	10	दस	कुलदीप सिंह
		पार्षद	11	ग्यारह	हरेन्द्रसिंह सिकरवार
		पार्षद	12	बारह	धारासिंह सोनी
		पार्षद	13	तेरह	विपिन रामसुमेर शुक्ला
		पार्षद	14	चौदह	बबीता मगनदीप सिन्दू गौड़
		पार्षद	15	पन्द्रह	मिथलेश विशम्भरदयाल सिंहल

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र. एफ. 65-08-09-तीन-305.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, अम्बाह, जिला-मुरैना.	अध्यक्ष	-	-	मंजू मधुराज तोमर
		पार्षद	1	एक	साधना विमल जैन
		पार्षद	2	दो	मनोज शर्मा
		पार्षद	3	तीन	राकेश ओझा
		पार्षद	4	चार	सुमन गिरीज तिवारी
		पार्षद	5	पांच	जनक श्री रजक
		पार्षद	6	छः	सुनीता विक्रय तौमर
		पार्षद	7	सात	प्रमिलेश पुष्पेन्द्र सिंह
		पार्षद	8	आठ	अनीता देवी वर्मा (सुनार)
		पार्षद	9	नौ	मनोज

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	10	दस	लक्ष्मीदेवी छारी
		पार्षद	11	ग्यारह	प्रदीप कुमार शर्मा (हण्डा)
		पार्षद	12	बारह	संतोष कुमार वर्मा
		पार्षद	13	तेरह	अभय (रिन्कू) नाथू पटेल
		पार्षद	14	चौदह	पुष्पा ओझा
		पार्षद	15	पन्द्रह	क्षमा (छोटई)
		पार्षद	16	सोलह	सुभाष सिंह (गुड्डा)
		पार्षद	17	सत्रह	मेवाराम जाटव
		पार्षद	18	अठारह	उमेश जैन

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-306.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, जौरा, जिला-मुरैना.	अध्यक्ष	-	-	श्री राजेश वर्मा
		पार्षद	1	एक	श्री मनोज शर्मा
		पार्षद	2	दो	श्रीमती मिथलेश पत्नी राकेश राठौर
		पार्षद	3	तीन	मोहन देई कप्तानसिंह किरार
		पार्षद	4	चार	श्रीमती सरवदी शाक्य
		पार्षद	5	पांच	प्रमोद शर्मा उर्फ पिरों
		पार्षद	6	छः	विजय वर्मा उर्फ कचौड़ी
		पार्षद	7	सात	प्रेमवती चिम्पनसिंह कुशवाह
		पार्षद	8	आठ	रूषा गुप्ता
		पार्षद	9	नौ	पंकज गुप्ता एहरोली
		पार्षद	10	दस	सुनीता राजेन्द्र त्यागी
		पार्षद	11	ग्यारह	राजेश गोयल
		पार्षद	12	बारह	श्रीमती सुधा महेश मंगल
		पार्षद	13	तेरह	जगजीवनराम मेहतर
		पार्षद	14	चौदह	सुनील-हरिश्चन्द्र सर्राफ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	15	पन्द्रह	निधि अवधेश सिंह
		पार्षद	16	सोलह	महेश उर्फ गुड्डा जाटव
		पार्षद	17	सत्रह	श्रीमती पुष्पा वीरेन्द्र सिंह नेगी
		पार्षद	18	अठारह	रामकान्ती-बनवारीलाल सविता

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-307.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, बानमोर जिला-मुरैना.	अध्यक्ष	-	-	श्री कमल सिंह राजे
		पार्षद	1	एक	जगदीश किरार
		पार्षद	2	दो	जोगेन्द्र सिंह गुर्जर
		पार्षद	3	तीन	श्रीमती लक्ष्मीदेवी/ पुरुषोत्तम जैन
		पार्षद	4	चार	भारत सिंह गुर्जर
		पार्षद	5	पांच	केशकली बघेल
		पार्षद	6	छः	विनोद खटीक
		पार्षद	7	सात	रफीक अहमद
		पार्षद	8	आठ	हरीदास
		पार्षद	9	नौ	महादेवी किरार
		पार्षद	10	दस	हेमलता / वीरेन्द्र किराड़
		पार्षद	11	ग्यारह	रमेश चन्द शर्मा
		पार्षद	12	बारह	कुलदीप सिंह
		पार्षद	13	तेरह	बेबी खटीक
		पार्षद	14	चौदह	लक्ष्मी / जसरथ जाटव
		पार्षद	15	पन्द्रह	राजाबेटी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-308.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष/पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, पोरसा जिला-मुरैना.	अध्यक्ष	-	-	सुरेश जाटव
		पार्षद	1	एक	वशीरन बानो इस्लाम खान
		पार्षद	2	दो	जसराम जाटव
		पार्षद	3	तीन	नम्रता प्रबल प्रताप चौहान
		पार्षद	4	चार	किरन-बालकिशन वर्मा
		पार्षद	5	पांच	मनीषा शिशुपाल सिंह
		पार्षद	6	छः	अतुल गुप्ता
		पार्षद	7	सात	सूरजमुखी जगदीश सिंह
		पार्षद	8	आठ	शशिकान्त सिंह तोमर
		पार्षद	9	नौ	रामवरन उर्फ रामकरन कुशवाह
		पार्षद	10	दस	सविता-पान सिंह
		पार्षद	11	ग्यारह	चिन्तू उर्फ भगवान सिंह
		पार्षद	12	बारह	कमलेश तिवारी
		पार्षद	13	तेरह	कमला देवी तिवारी
		पार्षद	14	चौदह	जगदीश श्रीवास
पार्षद	15	पन्द्रह	रामदीन सखवार		

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र. एफ. 65-08-09-तीन-309.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष/पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, छतरपुर जिला-छतरपुर.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती अर्चना गुड्डू सिंह
		पार्षद	1	एक	श्रीमती ज्ञान नायक
		पार्षद	2	दो	श्री रामेश्वर यादव



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	3	तीन	श्री विशाल शर्मा
		पार्षद	4	चार	श्रीमती पुष्पा चौरसिया
		पार्षद	5	पांच	श्रीमति कमला कोरी
		पार्षद	6	छः	श्री बकी मोहम्मद/जुम्मन खां
		पार्षद	7	सात	विजेता दुबे
		पार्षद	8	आठ	श्रीमती भागवती अहीर
		पार्षद	9	नौ	श्री ओमप्रकाश ताम्रकार
		पार्षद	10	दस	श्रीमती स्वाती सोनू गुप्ता
		पार्षद	11	ग्यारह	सावित्री बाई
		पार्षद	12	बारह	श्री गुलजिंदर सिंह सोढ़ी
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती सुधा अनुरागी
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती सुशीला सोनी
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमती रीतू पिपरसानियां
		पार्षद	16	सोलह	रानी बेगम उर्फ शीला
		पार्षद	17	सत्रह	बृजेश सिंह राय
		पार्षद	18	अठारह	श्रीमती गिरिजा रानी
		पार्षद	19	उन्नीस	श्री कमाल अहमद
		पार्षद	20	बीस	श्री इनेहशन
		पार्षद	21	इक्कीस	श्री प्रेम बिहारी नौगरैया
		पार्षद	22	बाईस	श्रीमती शिवानी
		पार्षद	23	तेईस	श्रीमती गिरिजा शर्मा
		पार्षद	24	चौबीस	श्री भगवती प्रसाद भारती
		पार्षद	25	पच्चीस	श्री दिलीप रैकवार पल्ली
		पार्षद	26	छब्बीस	श्री रईसा सिराज
		पार्षद	27	सत्ताईस	श्री शरीफ खान
		पार्षद	28	अट्ठाईस	श्री शेख रसीद
		पार्षद	29	उन्तीस	श्रीमती जरीना
		पार्षद	30	तीस	श्री अशोक कुमार
		पार्षद	31	इकतीस	श्री अरविंद सिंह यादव
		पार्षद	32	बत्तीस	श्री देवेन्द्र द्विवेदी
		पार्षद	33	तैंतीस	श्रीमती अनीता मिश्रा
		पार्षद	34	चौंतीस	श्री विकेन्द्र बाजपेयी
		पार्षद	35	पैंतीस	श्रीमती कमलेश
		पार्षद	36	छत्तीस	श्री अदित सिंह (राहुल)
		पार्षद	37	सैंतीस	श्रीमती रामकली त्रिपाठी
		पार्षद	38	अड़तीस	श्री अनिल उर्फ गुड्डा
		पार्षद	39	उन्तालीस	श्रीमती प्यारी देवी
		पार्षद	40	चालीस	श्रीमती गीता गिरि गोस्वामी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र. एफ. 65-08-09-तीन-310.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र. (1)	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)
			अंकों में (4)	शब्दों में (5)	
1	नगरपालिका परिषद्, नौगांव, जिला-छतरपुर.	अध्यक्ष	-	-	श्री अंजुल सक्सेना
		पार्षद	1	एक	कलीम खान
		पार्षद	2	दो	प्रीति अभिषेक त्रिपाठी
		पार्षद	3	तीन	सरोज श्री राम यादव
		पार्षद	4	चार	“अम्मा” सावित्री यादव
		पार्षद	5	पांच	जीतेन्द्र सिंह यादव
		पार्षद	6	छः	ऊषा शर्मा
		पार्षद	7	सात	प्रेमनारायण चंदेल (डबलू)
		पार्षद	8	आठ	अंजना उर्फ अंजू
		पार्षद	9	नौ	फरजाना सरताज
		पार्षद	10	दस	अरजरिया कमलेश
		पार्षद	11	ग्यारह	अमित सक्सेना (मुन्ना बाबू)
		पार्षद	12	बारह	अग्निहोत्री पंकज
		पार्षद	13	तेरह	हिदायत हुसैन (उर्फ भाई)
		पार्षद	14	चौदह	आशू पियूष शिवहरे
		पार्षद	15	पन्द्रह	ओमकार सिंह यादव
		पार्षद	16	सोलह	महाजन उर्फ सुनील साहू
		पार्षद	17	सत्रह	अहिरवार वीरा बाई पत्नी लल्लू राम
		पार्षद	18	अठारह	अहिरवार रूकमणी
		पार्षद	19	उन्नीस	राजू बिछोले
		पार्षद	20	बीस	आशारानी दामोदार प्रसाद

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-311—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, हरपालपुर, जिला-छतरपुर.	अध्यक्ष	-	-	विशाल उर्फ रवि राय
		पार्षद	1	एक	श्रीमती गुड्डी यादव
		पार्षद	2	दो	जगदीश कोरी
		पार्षद	3	तीन	गोविन्ददास कोरी
		पार्षद	4	चार	श्रीमती सीता अहिरवार
		पार्षद	5	पांच	श्रीमती सरोज रूसिया
		पार्षद	6	छः	श्रीमती पुष्पा पाठक
		पार्षद	7	सात	श्रीमती किरन घुरा
		पार्षद	8	आठ	श्रीमती मीरा देवी भुर्जा
		पार्षद	9	नौ	वीरेन्द्र रैकवार
		पार्षद	10	दस	पुष्पेन्द्रसिंह सिसौदिया उर्फ रवि भैया
		पार्षद	11	ग्यारह	सुनील वत्रा
		पार्षद	12	बारह	श्रीमती शोभारानी खटीक
		पार्षद	13	तेरह	हरनामसिंह
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती मीना राजपूत
पार्षद	15	पन्द्रह	भानुप्रताप सेन		

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-312.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, गढ़ीमलहरा, जिला-छतरपुर.	अध्यक्ष	-	-	अहिरवार तीजाबाई
		पार्षद	1	एक	अली महबूब

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	2	दो	रतन दुलैया
		पार्षद	3	तीन	अनुरागी पानबाई
		पार्षद	4	चार	चौरसिया रमनभाई
		पार्षद	5	पांच	खातून फातमा
		पार्षद	6	छः	पूनम चौरसिया
		पार्षद	7	सात	रानी चौरसिया
		पार्षद	8	आठ	वीरेन्द्र कुमार चौरसिया
		पार्षद	9	नौ	घनश्याम दास अहिरवार
		पार्षद	10	दस	चौरसिया नरेन्द्र कुमार
		पार्षद	11	ग्यारह	राजाबाई रैकवार
		पार्षद	12	बारह	चौरसिया शकुन्तला
		पार्षद	13	तेरह	कल्लू वाजपेयी
		पार्षद	14	चौदह	हरीराम
		पार्षद	15	पन्द्रह	अनुरागी श्रीमती सुन्दररानी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-313.--मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, महाराजपुर, जिला-छतरपुर.	अध्यक्ष	-	-	चन्द्रमुखी चौरसिया पति श्री महेन्द्र सिंह चौरसिया.
		पार्षद	1	एक	जशोदा चौरसिया (मेन्टल) पति श्री घनश्याम चौरसिया.
		पार्षद	2	दो	श्री प्रेमचन्द्र प्रजापति पिता श्री श्याम लाल प्रजापति.
		पार्षद	3	तीन	श्री हरेश कुमार चौरसिया पिता श्री लक्ष्मनदास चौरसिया.
		पार्षद	4	चार	चन्द्रशेखर चौरसिया पिता श्री प्रकाश चन्द्र चौरसिया.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	5	पांच	अतरया भागीरथ पिता श्री संतराम चौरसिया
		पार्षद	6	छः	श्रीमती अहीर शिवकुमारी पति नारायण सिंह यादव.
		पार्षद	7	सात	चौरसिया प्रेमबाई पति श्री बलराम चौरसिया
		पार्षद	8	आठ	अर्चना चौरसिया पति विनोद चौरसिया
		पार्षद	9	नौ	पुष्पादेवी पति श्री सीताराम चौरसिया
		पार्षद	10	दस	सावित्री खटीक पति श्री घासीराम खटीक
		पार्षद	11	ग्यारह	शान्ती बाई पति बीरेन्द्र सिंह
		पार्षद	12	बारह	लछिया (बारेलाल) अनुरागी पति श्री बारे लाल अनुरागी.
		पार्षद	13	तेरह	रामकिशोर पिता कुन्जी लाल साहू
		पार्षद	14	चौदह	शीला देवी पति सीताशरण रिछारिया
		पार्षद	15	पन्द्रह	रामप्रताप सिंह पटैल पिता श्री परम लाल पटैल.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-314.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) को धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, बीजावर, जिला-छतरपुर.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती प्रीती दुबे
		पार्षद	1	एक	श्री अनुपम द्विवेदी
		पार्षद	2	दो	श्रीमती राजश्री कुशवाहा
		पार्षद	3	तीन	श्रीमती प्रेमवाई
		पार्षद	4	चार	श्री अजीज मुहम्मद
		पार्षद	5	पांच	सोनू संसिया
		पार्षद	6	छः	श्रीमती सुनीता असाटी
		पार्षद	7	सात	राकेश कुमार अग्रवाल
		पार्षद	8	आठ	शहीद खां
		पार्षद	9	नौ	भागवती मठठू बेलदार
		पार्षद	10	दस	पूरन कोंदर
		पार्षद	11	ग्यारह	गोविन्द सोनी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	12	बारह	तनवीर जहां
		पार्षद	13	तेरह	ज्योती वाजपेयी
		पार्षद	14	चौदह	अंजुम इसरार खां
		पार्षद	15	पन्द्रह	शशि यादव

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-315.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, बड़ामलहरा, जिला-छतरपुर.	अध्यक्ष	-	-	निशा राजा पति आनंद सिंह
		पार्षद	1	एक	कृष्ण प्रताप सिंह
		पार्षद	2	दो	आदिवासी रघुनाथ
		पार्षद	3	तीन	कैलाश पन्या/नाथूराम पन्या
		पार्षद	4	चार	मानिका पति कमलेश
		पार्षद	5	पांच	रामजू राजा
		पार्षद	6	छः	संध्या पति गनेश प्रसाद विश्वकर्मा
		पार्षद	7	सात	यागवेन्द्र सिंह उर्फ बबलू राजा पिता माधव सिंह.
		पार्षद	8	आठ	इमत्याज पति गुलशेर खां
		पार्षद	9	नौ	भागीरथ पिता गोरे लाल
		पार्षद	10	दस	चौहान लक्ष्मी
		पार्षद	11	ग्यारह	अहीर गिरजा बाई/जानकी यादव
		पार्षद	12	बारह	दीन दयाल सेन
		पार्षद	13	तेरह	हरीदास अहिरवार पिता गनेशा अहिरवार
		पार्षद	14	चौदह	अहिरवार पुन्टी बाई पति हरपा
		पार्षद	15	पन्द्रह	अहिरवार जशोदा पति नथुवा

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-316.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, बकस्वाहा, जिला-छतरपुर.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमति कमला गंधर्व
		पार्षद	1	एक	जगदीश बिल्थरे
		पार्षद	2	दो	अहीर रामदयाल
		पार्षद	3	तीन	मीरा साहू
		पार्षद	4	चार	अंकूश फट्टा
		पार्षद	5	पांच	मुन्नीबाई जैन पति हरिश्चन्द्र
		पार्षद	6	छः	संतोषबाई ताम्रकार
		पार्षद	7	सात	जगदीश नापित
		पार्षद	8	आठ	रशीद खॉ
		पार्षद	9	नौ	रमेश पटैल
		पार्षद	10	दस	श्रीमति ललिताबाई
		पार्षद	11	ग्यारह	आशाबाई साहू
		पार्षद	12	बारह	कुसुम सोनी
		पार्षद	13	तेरह	गेंदारानी लोधी
		पार्षद	14	चौदह	अरविंद कुमार खटीक
		पार्षद	15	पन्द्रह	अहिरवार कविता

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-317.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, सटई, जिला-छतरपुर.	अध्यक्ष	-	-	श्री मुन्ना लाल पाल
		पार्षद	1	एक	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	2	दो	गोमती जाटव
		पार्षद	3	तीन	पानबाई/राजकुमार जाटव
		पार्षद	4	चार	संतोष विश्वकर्मा
		पार्षद	5	पांच	क्रांतिदेवी
		पार्षद	6	छः	श्री हीरा लाल रैकवार
		पार्षद	7	सात	श्रीमती मीना जगदीश रैकवार
		पार्षद	8	आठ	श्री प्रभात वाला पटेल
		पार्षद	9	नौ	श्रीमती समीम बानो
		पार्षद	10	दस	श्री ओमप्रकाश पाठक
		पार्षद	11	ग्यारह	श्री काशीराम शिवहरे
		पार्षद	12	बारह	श्रीमती मालती कुशवाहा
		पार्षद	13	तेरह	श्री काशीराम जाटव
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती वीरा/विन्द्रावन पटेल
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमती कुमकुम पटेल

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-318.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, लौड़ी, जिला-छतरपुर.	अध्यक्ष	-	-	श्री रेवालाल अहिरवार
		पार्षद	1	एक	आरती
		पार्षद	2	दो	गुप्ता रामकिशोर
		पार्षद	3	तीन	कुसुमा प्रजापति
		पार्षद	4	चार	कुशवाहा दयावती
		पार्षद	5	पांच	सीता तिवारी
		पार्षद	6	छः	चौरसिया महेश चन्द्र
		पार्षद	7	सात	मुन्ना लाल अहिरवार
		पार्षद	8	आठ	अम्बिका पटेल
		पार्षद	9	नौ	अहिरवार तुलसा
		पार्षद	10	दस	राजेन्द्र प्रसाद उर्फ राजू पण्डा



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	11	ग्यारह	मुस्तफा सौदागर
		पार्षद	12	बारह	खरे दीपक "एडवोकेट"
		पार्षद	13	तेरह	दीक्षित प्रतिपाल
		पार्षद	14	चौदह	अशोक रानी
		पार्षद	15	पन्द्रह	अहिरवार चत्ती

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-319.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, चंदला, जिला-छतरपुर.	अध्यक्ष	-	-	अहिरवार तुलसा देवी
		पार्षद	1	एक	कुम्हार भूरा
		पार्षद	2	दो	अवधेश त्रिवेदी उर्फ राजू
		पार्षद	3	तीन	अहिरवार सिमिया
		पार्षद	4	चार	अब्दुल मु. रज्जाक
		पार्षद	5	पांच	गोमती अहिरवार
		पार्षद	6	छः	अशोक शुक्ला
		पार्षद	7	सात	श्रीमती राजेन्द्रा यादव
		पार्षद	8	आठ	सहोद्रा सिंह
		पार्षद	9	नौ	लीला रमेश साहू
		पार्षद	10	दस	नरेन्द्र नीलम
		पार्षद	11	ग्यारह	अहीर जाहिर सिंह यादव
		पार्षद	12	बारह	इन्द्रपाल खटीक
		पार्षद	13	तेरह	विष्णुदत्त दीक्षित
		पार्षद	14	चौदह	अंसारी रोशन जहाँ
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमती त्रिवेणी मिश्रा

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-320.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र. (1)	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में (4)	शब्दों में (5)	निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)
1	नगर पंचायत, बारीगढ़, जिला-छतरपुर.	अध्यक्ष	-	-	अनुरागी पाना
		पार्षद	1	एक	चौरसिया हरदयाल
		पार्षद	2	दो	इशरत खातून
		पार्षद	3	तीन	चौरसिया नीलम
		पार्षद	4	चार	अल्पना शिवहरे
		पार्षद	5	पांच	उर्मिला राय
		पार्षद	6	छः	मिथलेश शिवहरे
		पार्षद	7	सात	दीप्ती सिंह
		पार्षद	8	आठ	संदीप सिंह उर्फ चिन्टू
		पार्षद	9	नौ	कामता सिंह
		पार्षद	10	दस	अजय कुमार सैनी
		पार्षद	11	ग्यारह	अहिरवार कालीदीन
		पार्षद	12	बारह	अनुरागी फूलारानी
		पार्षद	13	तेरह	अहिरवार रामकुंवर
		पार्षद	14	चौदह	गोपीचन्द्र चौरसिया
		पार्षद	15	पन्द्रह	अनुरागी खूबचन्द्र

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-321.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र. (1)	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में (4)	शब्दों में (5)	निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)
1	नगर पंचायत, राजनगर, जिला-छतरपुर.	अध्यक्ष	-	-	विपिन पटैरिया तनय श्री स्वामी प्रसाद पटैरिया
		पार्षद	1	एक	अहीर प्रेम/चतुरेश यादव
		पार्षद	2	दो	श्रीमती पुष्पा खटीक/कमलेश खटीक
		पार्षद	3	तीन	ग्यासीलाल/रम्मन
		पार्षद	4	चार	श्रीमती सावित्री सोनी
		पार्षद	5	पांच	नूर मुहम्मद / शेख झल्लू
		पार्षद	6	छः	प्रभा विश्वकर्मा/प्रेम.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	7	सात	महरुम निशा/अजमत उल्ला
		पार्षद	8	आठ	छौटेलाल कुशवाहा/श्यामलाल
		पार्षद	9	नौ	श्रीमती सिद्धीका खातून/वाहिद अली
		पार्षद	10	दस	दिनेश कुमार खरे/लक्ष्मी प्रसाद खरे
		पार्षद	11	ग्यारह	मुहम्मद निशा/ उस्मान
		पार्षद	12	बारह	संतोष कुमार (मुल्लाजी) / मानिक चन्द्र जैन.
		पार्षद	13	तेरह	प्रभु/ बन्दी पटेल
		पार्षद	14	चौदह	अली विषमिल्ला/मुन्नाखां
		पार्षद	15	पन्द्रह	चंदारानी अहिरवार उर्फ (चंगरानी)/गयाप्रसाद

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र. 65-08-09-तीन-322.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, खजुराहो, जिला-छतरपुर.	अध्यक्ष	-	-	श्री बिहारीलाल
		पार्षद	1	एक	संतोषी देवी नायक
		पार्षद	2	दो	जगू प्रजापति
		पार्षद	3	तीन	दुर्गा प्रसाद पटेल
		पार्षद	4	चार	राजपूत शान्ति
		पार्षद	5	पांच	मनीराम रैकवार
		पार्षद	6	छः	शेख रमजान
		पार्षद	7	सात	राजकुमारी दुबे
		पार्षद	8	आठ	अहिरवार खिमियां वाई
		पार्षद	9	नौ	चन्देल मौना सिंह
		पार्षद	10	दस	श्रीमती कुसुमवाई अनुरागी
		पार्षद	11	ग्यारह	जैन शान्त कुमार
		पार्षद	12	बारह	शान्ति पटेल (कुर्मी)
		पार्षद	13	तेरह	अरुण कुमार उर्फ पप्पू
		पार्षद	14	चौदह	चन्देल शकुन्तला सिंह
		पार्षद	15	पन्द्रह	मोहनलाल रजक

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-323.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, गोविन्दगढ़ जिला-रीवा	अध्यक्ष	-	-	श्री राजेश कुमार गुप्ता
		पार्षद	1	एक	नागेन्द्र प्रसाद पटेल (छंगा)
		पार्षद	2	दो	श्रीमती कृष्णा त्रिपाठी
		पार्षद	3	तीन	मो. रफीक मन्सूरी
		पार्षद	4	चार	जया पाण्डेय
		पार्षद	5	पांच	गीता सोंधिया
		पार्षद	6	छः	कुसुम वर्मा
		पार्षद	7	सात	रामपाल चौधरी
		पार्षद	8	आठ	श्रीमती सुधा मिश्रा
		पार्षद	9	नौ	संत कुमार कोल
		पार्षद	10	दस	ऊषा कुशवाहा
		पार्षद	11	ग्यारह	श्री प्रकाश बढौलिया
		पार्षद	12	बारह	ओमशंकर गुप्ता
		पार्षद	13	तेरह	राजकृष्ण वर्मा (राजू)
		पार्षद	14	चौदह	शकुन्तला चिकवा
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीनिवास

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-324.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में (4)	शब्दों में (5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, बैकुण्ठपुर जिला-रीवा.	अध्यक्ष	-	-	रतन कुमारी कुशवाहा
		पार्षद	1	एक	मणिराज कुशवाहा
		पार्षद	2	दो	राजरानी विश्वकर्मा
		पार्षद	3	तीन	राजेश तिवारी
		पार्षद	4	चार	पनाऊ
		पार्षद	5	पांच	सुदामा
		पार्षद	6	छः	कल्पना सिंह
		पार्षद	7	सात	चन्द्रशेखर कुशवाहा
		पार्षद	8	आठ	सजन सिंह
		पार्षद	9	नौ	रामकली विश्वकर्मा
		पार्षद	10	दस	तीरथ गुप्ता (लाल जी)
		पार्षद	11	ग्यारह	सत्यनारायण गुप्ता
		पार्षद	12	बारह	संगीता सोनी
		पार्षद	13	तेरह	खातिजा खातून
		पार्षद	14	चौदह	कमल कुमारी साकेत
		पार्षद	15	पन्द्रह	सीमा पाण्डेय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-325.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, गुड़ जिला-रीवा.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती. शोभा अवधिया
		पार्षद	1	एक	श्री मुनि महेश सिंह
		पार्षद	2	दो	श्रीमती गीता तिवारी
		पार्षद	3	तीन	श्रीमती विमला देवी पुरी
		पार्षद	4	चार	जितेन्द्र कुमार सोनी (संजू)
		पार्षद	5	पांच	श्याम सुन्दर सिंगरहा
		पार्षद	6	छः	मकबूल खां
		पार्षद	7	सात	श्रीमती रामबाई साकेत
		पार्षद	8	आठ	रामकुमार खटिक
		पार्षद	9	नौ	शंकरलाल बसोर
		पार्षद	10	दस	कुशुम सिंह
		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती माधुरी ताम्रकार
		पार्षद	12	बारह	रामकली गुप्ता
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती सविता त्रिपाठी
		पार्षद	14	चौदह	रतीलाल कोल
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमती मीना मिश्रा

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुषम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-326.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, मऊगंज जिला-रीवा.	अध्यक्ष	-	-	कनीज फातिमा
		पार्षद	1	एक	देवकली पटेल
		पार्षद	2	दो	मानवती साकेत
		पार्षद	3	तीन	विक्रम सिंह
		पार्षद	4	चार	सुशील कुमार सोनी (चंकी)
		पार्षद	5	पांच	रामलखन गुप्ता
		पार्षद	6	छः	रामशिरोमणि साकेत
		पार्षद	7	सात	चमेलीदेवी साकेत
		पार्षद	8	आठ	ऊषा मिश्रा
		पार्षद	9	नौ	महेन्द्र कुमार
		पार्षद	10	दस	नूरजहां
		पार्षद	11	ग्यारह	ठाकुरदीन कोल
		पार्षद	12	बारह	प्रमिला राकेश कुमार पटेल
		पार्षद	13	तेरह	ज्ञानवती तिवारी
		पार्षद	14	चौदह	शिवकुमार
		पार्षद	15	पन्द्रह	राजकली मिश्रा उर्फ वर्षा मिश्रा

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-327.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, हनुमना, जिला-रीवा.	अध्यक्ष	-	-	रमेश कुमार जायसवाल
		पार्षद	1	एक	गोरेलाल भारतीय
		पार्षद	2	दो	रावेन्द्र सिंह उर्फ हलकू सिंह
		पार्षद	3	तीन	सुन्दरी यादव
		पार्षद	4	चार	पूनम गुप्ता
		पार्षद	5	पांच	भाईलाल कोल
		पार्षद	6	छः	रामबदन सौंधिया
		पार्षद	7	सात	गुलाबकली कोल
		पार्षद	8	आठ	रामसिया नापित
		पार्षद	9	नौ	भरतलाल गुप्ता
		पार्षद	10	दस	सुशीला देवी गुप्ता
		पार्षद	11	ग्यारह	मोहम्मद अली
		पार्षद	12	बारह	बीना देवी नामदेव
		पार्षद	13	तेरह	द्रोपदी द्विवेदी
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती ललिता तिवारी
		पार्षद	15	पन्द्रह	राधिका कोल

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.



अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-328.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, नईगढ़ी, जिला-रीवा.	अध्यक्ष	-	-	पार्वती जायसवाल पति इन्द्रभान जायसवाल
		पार्षद	1	एक	श्रीमती कुशुमकली पटेल पति श्री हीरालाल पटेल
		पार्षद	2	दो	श्री रामजी कश्यप पिता उदयराज
		पार्षद	3	तीन	श्री छविलाल प्रजापति
		पार्षद	4	चार	श्री रामसखा पटेल तनय श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल
		पार्षद	5	पांच	श्री रामसजीवन
		पार्षद	6	छः	ऊषा पटेल
		पार्षद	7	सात	श्री रामसजीवन साहू पिता मथुरा प्रसाद
		पार्षद	8	आठ	श्रीमती अनीता साकेत पति बालमीक साकेत
		पार्षद	9	नौ	श्रीमती शिववती नामदेव पति रामश्रय नामदेव
		पार्षद	10	दस	श्री रामसजीवन सोनी
		पार्षद	11	ग्यारह	युसुफ खां पिता नन्हे खां
		पार्षद	12	बारह	छोटकिया यादव
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती तेरसी पति सुरेश बसोर
		पार्षद	14	चौदह	श्यामलाल कोल
पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमती शीला कोल पति जवाहर लाल कोल		

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-329.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष/ पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, त्योंथर, जिला-रीवा.	अध्यक्ष	-	-	डॉ. अनिल तिवारी
		पार्षद	1	एक	श्रीमती प्रीतम सिंह
		पार्षद	2	दो	गुलजार प्रजापति (कुम्हार)
		पार्षद	3	तीन	पार्वती सोनी
		पार्षद	4	चार	सर्फराज उर्फ मंगल
		पार्षद	5	पांच	गुलाबलली
		पार्षद	6	छः	गुलाबकली दीपांकर
		पार्षद	7	सात	राम रतन साकेत
		पार्षद	8	आठ	दधिवल सिंह बहेलिया
		पार्षद	9	नौ	बुद्धसेन
		पार्षद	10	दस	सुखिया देवी
		पार्षद	11	ग्यारह	आशा सिंह
		पार्षद	12	बारह	भागवत
		पार्षद	13	तेरह	उमेश कुमार गुप्ता
		पार्षद	14	चौदह	आशा देवी
		पार्षद	15	पन्द्रह	कामता प्रसाद कोटवार

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-330.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, सिरमौर, जिला-रीवा.	अध्यक्ष	-	-	रामसज्जन शुक्ला
		पार्षद	1	एक	आशा सेन
		पार्षद	2	दो	महेन्द्र सिंह कोटवार
		पार्षद	3	तीन	कमलेन्द्र प्रताप
		पार्षद	4	चार	जगदम्बा सोनी
		पार्षद	5	पांच	राजवली पाण्डेय उर्फ (रहीस)
		पार्षद	6	छः	सुनीता कुशवाहा
		पार्षद	7	सात	
		पार्षद	8	आठ	श्रीमती प्रेमा दाहिया
		पार्षद	9	नौ	शिवकुमार उर्फ सरदार सोनी
		पार्षद	10	दस	सौखीलाल आदिवासी
		पार्षद	11	ग्यारह	कुसुमकली सोनी
		पार्षद	12	बारह	शैलेन्द्र सिंह भदौरिया (एडवोकेट)
		पार्षद	13	तेरह	कमला देवी मिश्रा
		पार्षद	14	चौदह	पूर्णमा
		पार्षद	15	पन्द्रह	सुनीता कोल

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-331.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, सेमरिया, जिला-रीवा.	अध्यक्ष	-	-	श्यामकली गुप्ता
		पार्षद	1	एक	राधा सिंह
		पार्षद	2	दो	बनारसीदास पिता रामसेवक
		पार्षद	3	तीन	कमलेश प्रसाद सोनी पिता तीरथ सोनी
		पार्षद	4	चार	सुनीता w/o देवेन्द्र
		पार्षद	5	पांच	सकुनिया बंसल
		पार्षद	6	छः	राजू प्रसाद रावत
		पार्षद	7	सात	गैबी पिता छोटा
		पार्षद	8	आठ	अजय कुमार पिता भैयालाल
		पार्षद	9	नौ	मोबीन पिता इमरान
		पार्षद	10	दस	नीलू सिंह
		पार्षद	11	ग्यारह	कैलाश प्रसाद
		पार्षद	12	बारह	रामसखी कुशवाहा
		पार्षद	13	तेरह	करूणा सिंह w/o राजेश सिंह
		पार्षद	14	चौदह	सरोज शुक्ला w/o अशोक कुमार शुक्ला
		पार्षद	15	पन्द्रह	सुन्दरलाल साकेत

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-332.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, मनगवां, जिला-रीवा.	अध्यक्ष	-	-	लक्ष्मीनारायण सोनी (मुन्ना)
		पार्षद	1	एक	सन्तकुमार रावत (मामू)
		पार्षद	2	दो	लवकुश गुप्त
		पार्षद	3	तीन	सैफुन निशा
		पार्षद	4	चार	अरविन्द कुमार मिश्रा
		पार्षद	5	पांच	न्यामुल हक
		पार्षद	6	छः	सुनीता गुप्ता
		पार्षद	7	सात	श्रीमती रामबाई साकेत
		पार्षद	8	आठ	श्रीमती नीशा
		पार्षद	9	नौ	लक्ष्मण प्रसाद
		पार्षद	10	दस	श्रीमती शिवकली जोगी
		पार्षद	11	ग्यारह	देवमुनि मिश्र
		पार्षद	12	बारह	श्रीमती मुन्नी पटेल
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती शान्ती देवी पटेल
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती पूनम सोनी
		पार्षद	15	पन्द्रह	कपूरलाल सोनी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-333.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, जतारा, जिला- टीकमगढ़.	अध्यक्ष	-	-	जगदीश शरण नायक
		पार्षद	1	एक	अमनी रैकवार
		पार्षद	2	दो	बाबूलाल बरार
		पार्षद	3	तीन	राजावेटी
		पार्षद	4	चार	शोभा अरविन्द्र शर्मा (डिसिल्वा)
		पार्षद	5	पांच	बिजावर बाई उर्फ काशी बाई
		पार्षद	6	छः	अहिरवार रामकिसोर
		पार्षद	7	सात	शब्बीरवेग
		पार्षद	8	आठ	संतोष रजक
		पार्षद	9	नौ	शकुन्तला निर्मलचन्द्र
		पार्षद	10	दस	उर्मिलादेवी
		पार्षद	11	ग्यारह	रजनी राजकुमार जैन
		पार्षद	12	बारह	अंसारी सुल्तान
		पार्षद	13	तेरह	राजेन्द्र कुमार साहू
		पार्षद	14	चौदह	मो. फिरोज खान
		पार्षद	15	पन्द्रह	गणेश दीक्षित (दही)

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-334.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, पलेरा, जिला-टीकमगढ़	अध्यक्ष	-	-	खटीक सुनील कुमार
		पार्षद	1	एक	किरण अवध नापित
		पार्षद	2	दो	चर्तभुज
		पार्षद	3	तीन	गुलाब आदिवासी
		पार्षद	4	चार	राजू
		पार्षद	5	पांच	भैंरो रैकवार
		पार्षद	6	छः	मुन्नीदेवी इन्दु पटैरिया
		पार्षद	7	सात	रमेश नापित
		पार्षद	8	आठ	अहिरवार जयराम
		पार्षद	9	नौ	कचरे हरिशंकर
		पार्षद	10	दस	अहीर हरकुंवर ओमप्रकाश
		पार्षद	11	ग्यारह	अहीर हीरादेवी उमाशंकर
		पार्षद	12	बारह	खटीक सावित्री
		पार्षद	13	तेरह	पर्वत सिंह राय
		पार्षद	14	चौदह	सुशीला ठाकुरदास अहिरवार
		पार्षद	15	पन्द्रह	अहिरवार जगन्नाथ

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-335.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, बड़गांव, धसान, जिला-टीकमगढ़.	अध्यक्ष	-	-	सावित्री पाण्डे
		पार्षद	1	एक	बाबूलाल लोधी
		पार्षद	2	दो	किरण देवी जैन
		पार्षद	3	तीन	असाठी फूलवती
		पार्षद	4	चार	लक्ष्मी प्रसाद संज्ञा
		पार्षद	5	पांच	बन्दू आदिवासी
		पार्षद	6	छः	मुन्नी बाई अहिरवार
		पार्षद	7	सात	छन्दी अहिरवार
		पार्षद	8	आठ	हिमतू अहिरवार
		पार्षद	9	नौ	गीता ताम्रकार
		पार्षद	10	दस	सीताराम विश्वकर्मा
		पार्षद	11	ग्यारह	फूला चौरयाल
		पार्षद	12	बारह	प्रसन्न कुमार जैन
		पार्षद	13	तेरह	विमला देवी साहू
		पार्षद	14	चौदह	पारस अली उर्फ परसू
		पार्षद	15	पन्द्रह	रामरती विश्वकर्मा

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.



अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-336.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, बल्देवगढ़, जिला-टीकमगढ़	अध्यक्ष	-	-	चौरसिया पुष्पा देवी
		पार्षद	1	एक	गीता सैनी
		पार्षद	2	दो	सुकमाल जैन
		पार्षद	3	तीन	चन्दा रैकवार
		पार्षद	4	चार	मुस्ताक खां
		पार्षद	5	पांच	अली वली मुहम्मद
		पार्षद	6	छः	पार्वती
		पार्षद	7	सात	मुन्नु देवी बाल्मीक
		पार्षद	8	आठ	कस्तूरी बाई
		पार्षद	9	नौ	अली नबाब खान
		पार्षद	10	दस	कुंवर लक्ष्मन सिंह
		पार्षद	11	ग्यारह	संगीता ठाकुर
		पार्षद	12	बारह	आदिवासी मंगू
		पार्षद	13	तेरह	चम्पा चौरसिया
		पार्षद	14	चौदह	सुनीता चौरसिया
		पार्षद	15	पन्द्रह	गोरेलाल ढीमर

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-337.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, निवाड़ी, जिला-टीकमगढ़	अध्यक्ष	-	-	अहिरवार रमेश (निराला)
		पार्षद	1	एक	सोना देवी मकुन्दी प्रजापति
		पार्षद	2	दो	कुम्हार मूला देवी
		पार्षद	3	तीन	महेश कुशवाहा
		पार्षद	4	चार	अशोक कुमार कोरी
		पार्षद	5	पांच	गजेन्द्र राय
		पार्षद	6	छः	लालाराम कोरी
		पार्षद	7	सात	नरेन्द्र सिंह दांगी
		पार्षद	8	आठ	अपर्णा-सतेन्द्र तिवारी
		पार्षद	9	नौ	सुधा-लाखन यादव
		पार्षद	10	दस	अहिरवार-रानी-गुलाब चन्द्र
		पार्षद	11	ग्यारह	रेखा-प्रवेन्द्र खरे
		पार्षद	12	बारह	ममता महेन्द्र दांगी
		पार्षद	13	तेरह	अरविन्द्र दांगी
		पार्षद	14	चौदह	मिथला अमर सिंह कुशवाहा
		पार्षद	15	पन्द्रह	बृषभान रैकवार

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-338.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, जैरोन, जिला-टीकमगढ़	अध्यक्ष	-	-	राकेश कुमार शर्मा
		पार्षद	1	एक	आदित्य प्रकाश पाण्डेय
		पार्षद	2	दो	रामदेवी सोनी
		पार्षद	3	तीन	सुम्मेर कुशवाहा
		पार्षद	4	चार	परमिया कुशवाहा
		पार्षद	5	पांच	लड़कू कुशवाहा
		पार्षद	6	छः	मीराबाई यादव
		पार्षद	7	सात	हरप्रसाद कुशवाहा
		पार्षद	8	आठ	कौशिल्या खंगार
		पार्षद	9	नौ	ओमप्रकाश गोस्वामी
		पार्षद	10	दस	ममता पुष्पकार
		पार्षद	11	ग्यारह	विमला देवी
		पार्षद	12	बारह	घनश्याम दास रैकवार
		पार्षद	13	तेरह	बाबू यादव
		पार्षद	14	चौदह	सायरा बानो
		पार्षद	15	पन्द्रह	लक्ष्मी अहिरवार

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-339.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, खरगापुर जिला-टीकमगढ़	अध्यक्ष	-	-	ममता कोरी
		पार्षद	1	एक	हरदयाल चढ़ार
		पार्षद	2	दो	मनोज कुमार सोनी उर्फ मीनू
		पार्षद	3	तीन	मुहम्मद सरवर
		पार्षद	4	चार	अब्दुल हमीद
		पार्षद	5	पांच	मीना रंगरेज
		पार्षद	6	छः	श्यामबाई परसादी कुम्हार
		पार्षद	7	सात	किशारी लाल कोरी
		पार्षद	8	आठ	कृष्णा देवी मिश्रा
		पार्षद	9	नौ	राम भक्त उर्फ रिकू साहू
		पार्षद	10	दस	अखण्ड प्रताप सिंह
		पार्षद	11	ग्यारह	रेखा नापित
		पार्षद	12	बारह	अहिरवार रामप्यारी
		पार्षद	13	तेरह	हरिहर सिंह
		पार्षद	14	चौदह	अहीर रामसखी
		पार्षद	15	पन्द्रह	गनेशीबाई लोधी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-340.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, कारी जिला-टीकमगढ़	अध्यक्ष	-	-	श्री राकेश कुमार जैन
		पार्षद	1	एक	श्री मलखान घोष
		पार्षद	2	दो	श्रीमती अहीर सियानी
		पार्षद	3	तीन	श्रीमती अहिरवार कल्लू भाई
		पार्षद	4	चार	श्री हनीफ
		पार्षद	5	पांच	श्रीमती नीलम जैन
		पार्षद	6	छः	श्रीमती खरे मीरा
		पार्षद	7	सात	श्री प्रभूदयाल वंशकार
		पार्षद	8	आठ	श्रीमती सीतादेवी
		पार्षद	9	नौ	श्रीमती कौशिल्या
		पार्षद	10	दस	श्री गुलाब कुशवाहा
		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती लाडकुंवर रैकवार
		पार्षद	12	बारह	श्री रविकान्त तिवारी
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती सुन्तु कुशवाहा
		पार्षद	14	चौदह	श्री अहिरवार प्रमोद
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्री मनु पाल

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-341.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, लिधौरा जिला-टीकमगढ़	अध्यक्ष	-	-	रामश्री मथुरा प्रसाद खटीक
		पार्षद	1	एक	कुशवाहा वालकुर
		पार्षद	2	दो	अहिरवार गुनिया कमलेश
		पार्षद	3	तीन	भुमानीदेवी कुशवाहा
		पार्षद	4	चार	अहिरवार लल्ली
		पार्षद	5	पांच	सुषमा प्रमोद सोनी
		पार्षद	6	छः	मुवारक खां
		पार्षद	7	सात	ऊषा यादव
		पार्षद	8	आठ	रामसेवक साहू
		पार्षद	9	नौ	गजरा बाई यादव
		पार्षद	10	दस	अहिरवार कमलेश प्रसाद
		पार्षद	11	ग्यारह	हरि मोहन साहू उर्फ मुखिया
		पार्षद	12	बारह	अमित नायक (झल्लू)
		पार्षद	13	तेरह	चत्तू रैकवार
		पार्षद	14	चौदह	रमेश कोरी
		पार्षद	15	पन्द्रह	जितेन्द्र शर्मा उर्फ जीतू

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-342.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, पृथ्वीपुर जिला-टीकमगढ़	अध्यक्ष	-	-	आशादेवी/संजय कसगर
		पार्षद	1	एक	पुष्पा
		पार्षद	2	दो	मनोज देवी
		पार्षद	3	तीन	रैकवार हरिष्चन्द्र
		पार्षद	4	चार	सन्तोष कुमार
		पार्षद	5	पांच	खटीक रानी
		पार्षद	6	छः	पवन सोनी (पप्पू)
		पार्षद	7	सात	मुन्ना
		पार्षद	8	आठ	महेन्द्र कुमार (बब्लू भरतीय)
		पार्षद	9	नौ	मनोहर लाल
		पार्षद	10	दस	अग्रवाल गोविन्द दास
		पार्षद	11	ग्यारह	विजय कुमारी
		पार्षद	12	बारह	मक्खन
		पार्षद	13	तेरह	शीला
		पार्षद	14	चौदह	कुशवाहा चिरौंजी देवी
		पार्षद	15	पन्द्रह	महेश खरे

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-343.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, तरीचरकलां जिला-टीकमगढ़	अध्यक्ष	-	-	श्री मनीष वर्मा (मोनू)
		पार्षद	1	एक	विद्या देवी प्रेमनारायण पटेल
		पार्षद	2	दो	प्रेमदेवी पटेल
		पार्षद	3	तीन	हरनारायण वकील
		पार्षद	4	चार	अहिरवार दयालूराम
		पार्षद	5	पांच	अहिरवार उर्मिला-हरीदेवा
		पार्षद	6	छः	अहिरवार विद्या देवी-मुन्नालाल
		पार्षद	7	सात	अर्जुन सिंह कुशवाहा-रामदीन मेठ
		पार्षद	8	आठ	मोतीलाल कुशवाहा
		पार्षद	9	नौ	आर्य-तारादेवी-सुरेन्द्र
		पार्षद	10	दस	माया निरंजन
		पार्षद	11	ग्यारह	आर्य पुष्पादेवी
		पार्षद	12	बारह	लखन लाल कोरी
		पार्षद	13	तेरह	बृजलाल अहिरवार
		पार्षद	14	चौदह	प्रभूदयाल नापित
		पार्षद	15	पन्द्रह	प्रवेश पुष्पेन्द्र बुन्देला

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.



अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-344.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगरपालिका का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगरपालिका परिषद्, टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़	अध्यक्ष	-	-	राकेश गिरी
		पार्षद	1	एक	प्रभा देवी पत्नी श्री रामगोपाल दुबे
		पार्षद	2	दो	कुसुम रमेश रजक
		पार्षद	3	तीन	मनोज देवलिया
		पार्षद	4	चार	प्रफुल्ल कुमार द्विवेदी
		पार्षद	5	पांच	रानी सोनी
		पार्षद	6	छः	दीपाली त्रिपाठी
		पार्षद	7	सात	सुनील यादव
		पार्षद	8	आठ	अजय (सोनी) (अज्जू)
		पार्षद	9	नौ	मीना रैकवार
		पार्षद	10	दस	संजीव साहू
		पार्षद	11	ग्यारह	डॉ. राजेन्द्र कुमार-शिखर चन्द्र जैन
		पार्षद	12	बारह	गजेन्द्र कुमार चौधरी लुईस
		पार्षद	13	तेरह	आजाद इसराईल
		पार्षद	14	चौदह	सुन्दरलाल बाल्मीकि
		पार्षद	15	पन्द्रह	मिथला राय
		पार्षद	16	सोलह	ऊषा सुरेन्द्र सोनी
		पार्षद	17	सत्रह	अग्रवाल सीता देवी
		पार्षद	18	अठारह	अहिरवार कैलाश
		पार्षद	19	उन्नीस	शाहीन अशफाक
		पार्षद	20	बीस	शंकर सिंह राय
		पार्षद	21	इक्कीस	नजीम खॉ
		पार्षद	22	बाईस	गोरेलाल सैन
		पार्षद	23	तेईस	प्रेमबाई कुशवाहा
		पार्षद	24	चौबीस	अहीर रामकुमार
		पार्षद	25	पच्चीस	पुष्पा-हीरालाल यादव
		पार्षद	26	छब्बीस	प्यारी बाई
		पार्षद	27	सत्ताईस	राबिया-हफीज खॉ

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र.-65-08-09-तीन-345.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह दिसम्बर, 2009 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, बदनावर, जिला-धार.	अध्यक्ष	-	-	आशा राजेन्द्र सराफ उर्फ बब्बू
		पार्षद	1	एक	प्रितेश विजयसिंह पंवार
		पार्षद	2	दो	चन्द्रशेखर यादव उर्फ शेखर यादव
		पार्षद	3	तीन	प्रिति तरूण रावल
		पार्षद	4	चार	द्रोपतीबाई-वरदीचंद राठौर
		पार्षद	5	पांच	मनीष-केशवलाल गुर्जर
		पार्षद	6	छः	माधवीकुंवर सौलंकी पति युवराजसिंह सौलंकी
		पार्षद	7	सात	प्रकाश मकवाना (भूरा)
		पार्षद	8	आठ	विजयलक्ष्मी शर्मा
		पार्षद	9	नौ	पार्वती बाई मांगुजी गामड
		पार्षद	10	दस	चन्द्रकान्ता-लोकेश आर्य
		पार्षद	11	ग्यारह	शगुप्ता जहांगीर लाला
		पार्षद	12	बारह	धर्मेन्द्र-शिवनारायण शर्मा
		पार्षद	13	तेरह	पंकज ठाकुर
		पार्षद	14	चौदह	निर्मल वर्मा
		पार्षद	15	पन्द्रह	मीरा-राजेन्द्र सिर्वी

नोट.—उक्त निर्वाचन परिणाम मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर में दायर रिट पिटीशन क्रमांक-5349/2009 के अंतिम आदेश के अधधीन होगा.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.